



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 369]  
No. 369]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 1983/भाद्र 29, 1905  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1983/BHADRA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

बिस्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचनाएं

सं० 267/83-सीमा-शुल्क  
दई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1983

सां० कां० नि० 733(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमा  
शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25  
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  
अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा  
करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975  
(1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 76 के  
अन्तर्गत आने वाली ऐसी एलुमिनियम की पन्नी को जो  
पालिथिलीन फिल्म से पटलित है, जब उसका भारत में  
आयात किया जाए:—

- (i) उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय  
सीमाशुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 60  
प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक  
है; और

- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा  
3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त  
अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है,  
अर्थात्:-

- (क) ऐसी आयातित एलुमिनियम की पन्नी का, उक्त  
ऐसी एलुमिनियम की पन्नी में उपयोग किया  
जाता है जो पालिथिलीन फिल्म से पटलित  
है और जिसकी मोटाई 0.02 मि मी० से  
0.04 मि मी के बीच है और उसमें 97  
प्रतिशत से अधिक एलुमिनियम है;
- (ख) आयातकर्ता तकनीकी विकास महा निदेशक या  
भारत सरकार के विकास आयुक्त (लघु उद्योग)  
द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-  
पत्र प्रस्तुत करता है कि—

- (i) आयातकर्ता के पास औषधियों और औषधियों के  
विनिर्माण के लिए एक अनुमोदित कार्यक्रम है;  
और

(ii) ऐसे आयातित एलुमिनियम की पन्नी जो पालिथिलीन फिल्म से पटलित है, आयातकर्ता द्वारा औषधियों और औषधियों की स्ट्रिप पैकिंग के प्रयोजन के लिए अपेक्षित होगी।

(ग) आयातकर्ता, यथास्थिति, तकनीकी विकास महानिदेशक या भारत सरकार के विकास आयुक्त (लघु उद्योग) से उस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी एलुमिनियम की पन्नी का जो आयातित पालिथिलीन फिल्म से पटलित है उपरोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग प्रयोग किया गया है;

(घ) आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करके, स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह उक्त एलुमिनियम पन्नी की जो पालिथिलीन फिल्म से पटलित है, ऐसी मात्रा की बाबत जिसके बारे में, यथास्थिति, तकनीकी विकास महानिदेशक या भारत सरकार के विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाता कि उसका पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में, ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही संबन्धित शुल्क के बीच के अन्तर के बराबर हो।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 355/65/83-सीमाशुल्क-1]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

No. 267/83-COSTOMS

New Delhi, the 20th September, 1983

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aluminium foil laminated with polythylene film and falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

(i) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 60% ad-valorem; and

(ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :

(a) the imported aluminium foil used in the said aluminium foil laminated with polythylene film is of a thickness between 0.02 mm to 0.04 mm and contains more than 97 per cent of aluminium;

(b) the importer produces a certificate issued by the Director General of Technical Development or the Development Commissioner (Small Scale Industries) of the Government of India, to the effect that—

(i) the importer has an approved programme for the manufacture of drugs and medicines; and

(ii) the imported aluminium foil laminated with polythylene film shall be required by the importer for the purpose of strip packing of drugs and medicines;

(c) the importer produces a certificate from the Director General of Technical Development or the Development Commissioner (Small Scale Industries) of the Government of India, as the case may be, to the effect that the aluminium foil laminated with polythylene film imported has been used for the aforesaid purpose;

(d) the importer executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binding himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the said aluminium foil laminated with polythylene film as is not certified by the Director General of Technical Development or the Development Commissioner (Small Scale Industries) of the Government of India, as the case may be, to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity, but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

2: This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of December, 1983.

[F. No. 355/65/83-Cus. I]

सं० 268/83-सीमाशुल्क

NO. 268/83-CUSTOMS

सांका०नि० 734(अ):—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 126/83 सीमा शुल्क तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 230 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“231 सं० 267/83सीमाशुल्क, तारीख 20 सितम्बर 1983”

[सं० 355 /65 /83-सीमाशुल्क -1]

आनन्द छाबड़ा, उप सचिव

G.S.R. 734(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 126/83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification after Serial No. 230 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“231. No. 267/83-Customs, dated the 20th September, 1983”.

[F. No. 355/65/83-Cus. I]  
A. K. CHHABRA, Dy. Secy.

